







HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L31300DL1959PLC003141

Regd. Office: Kanchenjunga (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Phone: +91-11-23310001-05 (5 Lines), E-mail: huil@hindusthan.co.in, Website: www.hindusthanurban.com

Date: 24th August, 2022

To,
The Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 539984

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In terms of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 the Company has published the information regarding the 62nd Annual General Meeting to be held on Tuesday, 27th September, 2022 at 10:00 A.M. (IST) through VC/OAVM and other related information in the 'Financial Express' (English) and in 'Jansatta' (Hindi) Newspaper edition dated 24th August, 2022.

Further, in pursuance of Regulation 30 read with Schedule III (A) (12) please find enclosed the copy of Newspaper articles as published in above mentioned newspapers.

Kindly take the same on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

M.L. Birmiwala

President-Finance & Secretary



Bella Casa Fashion & Retail Limited

Registered Office- E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Raiasthan), Website-www.bellacasa.in. CIN- L17124RJ1996PLC011522, E-mail-info@bellacasa.in, Tel No. 0141-2771844 NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Bella Casa Fashion & Retail Limited ("Company" will be held on Friday, 16th September, 2022 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the ordinary business as set out in the notice of 26thAGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated 08thApril 2020, 13thApril 2020, 05thMay 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021 and 5th May,2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12thMay 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022 dated 13th May 2022 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circulars") without

The electronic copies of the Notice of the 26th AGM, Annual Report for the F.Y 2021-22 including the Audited Financial Statement for the financial year ended on 31st March, 2022 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2021-22 has been completed on 23rd August, 2022. The above documents are also available on the Company's website i.e. www.bellacasa.in, the website of the BSE Limited www.bseindia.com and at website of CDSL at www.evotingindia.com. The requirements of sending physical copy of the Notice of 26th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular mentioned above.

the physical presence of the Members at a common venue.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 09th September, 2022, may cast their vote electronically on the Ordinary Business, as set out in the notice of 26th AGM through e-voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services Limited ("CDSL"). All the members are informed that:

i the remote e-voting shall commence on Tuesday, September 13, 2022 at 09:00 a.m.(IST) and ends on Thursday, September 15, 2022 at 05:00 p.m.(IST)The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. ii any person who becomes Member of the Company after dispatch of the notice

of 26th AGM by email and holding shares as on cut-off date may obtain login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com . However, if already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting vote. iii. members may note that:

a) the e-voting shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting. Once the vote on the resolution is cast by the Member, Member shall not be allowed to change subsequently.

b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting System during the AGM. c) the member's participating in the 26th AGM and who had not cast their vote

byremote e-voting shall be entitled to cast their vote through system during the 26th AGM. d) the person whose name is recorded in the Register of Members or the Register

of beneficial owner maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 26th AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the 26th AGM, and e) since AGM will be held through VC there would be no requirement of appointing proxy in accordance with the MCA circulars accordingly

appointment of proxies by the member will not be applicable In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) Ms. Sonika Gupta, Company Secretary of the Company at E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022 (Raj.), Tel

0141-2771844 and email cs@bellacasa.in. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 10thSeptember, 2022 to Friday, 16thSeptember, 2022(both days inclusive).

> For Bella Casa Fashion & Retail Limited Sonika Gupta

Place: Jaipur (Company Secretary) Date: 23rd August,2022

South West Pinnacle

SOUTH WEST PINNACLE EXPLORATION LIMITED CIN: L13203HR2006PLC049480 Regd & Corp Office: Ground Floor, Plot No.15, Sector-44, Gurugram-122003

Phone: +91 124 4235400; Email: investors@southwestpinnacle.com; Website: www.southwestpinnacle.com PUBLIC NOTICE -16TH ANNUAL GENERAL MEETING (Pursuant to MCA Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 read with Circular No.20/2020 dated May 5, 2020)

This communication is regarding the Sixteenth (16th) Annual General Meeting ("AGM"

of South West Pinnacle Exploration Limited which will be held on Thursday 29th September 2022 at 03:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC") facility/other audio-visual means ("OAVM") as permitted by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA' & Securities and Exchange Board of India ('SEBI') regarding the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of the Members at common venue and in du compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("The Act" and the rules made thereunder read with General Circular No. 02/2022 dated May 05 2022 and circular Nos 21/2021 dated December 14, 2021; 02/2021 dated January 13 2021; 20/2020 dated May 05, 2020;17/2020 dated April 13, 2020; 14/2020 dated Apr 08, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA (collectively referred as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations 2015 ('Listing Regulations') read with SEBI circulars dated May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred as 'SEB Circulars') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be sent to members through e-mail separately.

The Company has entered into agreement with National Securities Depositories Limited (NSDL), authorized e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ('remote e-voting') to enable the members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM as well as for the members who are present at the AGM VC facility/OAVM and wish to cast their vote during AGM, through e-voting system ("e-voting"). The detailed process and manner for attending the AGM and manner o "remote e-voting" and "e-voting" during the AGM for members holding share in physica mode, dematerialization mode and for members who have not registered their email address will be provided in detail in the Notice of the AGM. In case you have any queries or issue regarding remote e-voting /e-voting, you may contact at evoting@nsdl.co.in o call at 1800-1020-990.

Members can attend and Participate in the AGM through the VC facility/OAVM only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly please note that no provisions has been made to attend and participate in the 16th AGM of the Company in person to ensure the compliances with the directives issued by the government authorities with respect abovesaid circulars. Members attending the meeting through VC facility/OAVM shall be counted for the purpose of the reckoning the Quorun under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/ Depositories. As per the MCA and SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent to any Member. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically and to receive Login credentials.

Additionally, the Notice of AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 will be available on the website of the Company a www.southwestpinnacle.com and also the website of the National Stock Exchange or which the shares of the Company are listed i.e www.nseindia.com.

Also, the shareholders may please note that the Board of Directors in their meeting held on May 23, 2022 has recommended a Final Dividend of Rs. 0.50 per equity share which will be paid subject to approval of the members in the ensuing Annual General Meeting of the company. The Final dividend shall be paid through electronic transfer modes to the Shareholders who have updated their bank account details. For Shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to the registered addresses depending on availability of postal services.

Members who have not updated their email address & Bank account details are requested to update their e-mail address with the Depository Participants or with company's RTA i.e M/s Link Intime India Private Limited at https://linkintime.co.in emailreg/email_register.html Members are requested to provide their Demat accoundetails (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) /can also contact to their Depository Participant(s)

Members are advised to opt for receipt of dividend through electric transfer to avoid delay in receiving the dividend. Accordingly, the members are requested to update their complete bank details with their depositaries where shares are held in dematerialised mode. (100% shareholding of the company are in demat form).

In accordance with the prevailing provisions of the Income Tax Act, 1961, the Company would be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. Therefore, the members are requested to update their PAN and other documents to avoid deduction of tax at higher rate with the Depository participant or Company's RTA i.e Link Intime India Private Limited at https:// linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html

Any member in case of any query concerning participation in the Annual Genera Meeting or payment of dividend may write at rnt.helpdesk@linkintime.co.in c investors@southwestpinnacle.com.

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of th Company in Compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

Place: GURUGRAM

financialer, epar.in

Date: 23.08.2022

BY AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS SOUTH WEST PINNACLE EXPLORATION LIMITED

> Sd/ **VIKAS JAIN CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR** DIN-00049217

DhanlaxmiBank 🖠 E-AUCTION NOTICE OF SALE OF HYPOTHICATED VEHICLE

Regional Office, 10185A, 1st Fl. oor, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s and Guarantor (s) that the below described hypothecated vehicle which have been in possession of Dhanlaxmi Bank Ltd, Regional Office 1st Floor 10185A Arya Sama Road Karol Bagh New Delhi 110005, will be sold on "As is where is", "As is what is" basis in all respects on 14/09/2022 for recovery of Rs.5,14,717.21 only (Rupees Five lakh fourteen thousand seven hundred seventeen and twenty one paisa only) and other charges due to the Dhanlaxmi Bank Ltd as on 21.08.2022 from Mr.Amandeep (borrower) & Mrs. Pooam (co borrower). The reserve price will be Rs.4,64,000/-(Rupees Four lakh and sixty four thousand only) and the earnest money deposit will be **Rs.46,400/-**(Rupees forty six thousand and four hundred only).

Description of the Hypothecated Vehicle Hvundai Car, Magna, I-20, Registration No: DL10CN4578, Engine No G4LAKM350443, Chassis No: MALBM51BLKM719986, Color Star Dust Model I20

MAGNA + VTVT in the name of Mr. Amandeep For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in

Dhanlaxmi Bank's website i.e. www.dhanbank.com Date: 22.08.2022 **Authorized Officer**

Place: New Delhi **Dhanlaxmi Bank Ltd**

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Kanchenjunga, (7° Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 CIN: L31300DL1959PLC003141, E-mail: investors@hindusthan.co.in

Website: www.hindusthanurban.com, Phone: +91-11-23310001-05 INFORMATION REGARDING 6210 ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO VISUAL MENAS ('VC/OVAM') This is to inform that the 62[™] Annual General Meeting ('AGM') of Hindusthan Urban Infrastructure Limited ('the Company') will be held on Tuesday 27" September, 2022 at 10:00 a.m. (IST) through VC/OVAM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the Business set out in the Notice of the AGM, without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice convening the 62" AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 (the Annual Report) of the Company will be sent electronically to all the members whose email address are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ('Registrar/RTA')/ Depository Participants ('DPS'). Additionally, the Notice of the 62" AGM will also be made available on the website of the Company at www.hindusthanurban.com; the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively, as well as of National Securities Depositories Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

In order to register the email address, members holding shares in Demat form, are requested to update the same with their concerned DPs and members holding shares in physical form, are requested to update the same with the RTA by writing to them.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility ('remote e-voting') of NSDL before as well as during the 62" AGM to all its Members to cast their votes on all Resolutions set out in the Notice convening the 62" AGM. Detailed procedure for remote e-voting will be provided in the Notice of the 62" AGM. For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

New Delhi 22.08.2022

M.L.Birmiwala President-Finance & Secretary

TRUCAP FINANCE LIMITED (Formerly known as Dhanvarsha Finvest Ltd)

Registered Office: Register office at 3" Floor, Building No.4, D.J. House, Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, GST No: 27AAACD9887D1ZC

Corporate Identity Number: L24231MH1994PLC334457

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by TruCap Finance Limited (Formerly known as Dhanvarsha Finvest Ltd) on 26" August 2022 at Mayur Vihar at 11:00 A.M.

Branch address: TruCap Finance Limited (Formerly known as Dhanvarsha Finvest Ltd) P-11, First Floor, Panday Nagar, Mayur Vihar 1, New Delhi-110091 The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various

Customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly

The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various Customers mentioned below with branch name.

Dilshad Colony Branch: DV2100000023193. DV2400000023132. GL0000000014005 GL000000014156, GL0000000014317, GL0000000014513, GL0000000015297 GL0000000015727, GL0000000017573, GL0000000018719, GL0000000019345. Faridabad Branch: DV2100000015731, DV2200000008760, DV2200000012647 GL000000009551, GL0000000011979, GL0000000012373, GL0000000012710. GL000000012930, GL0000000013073, GL0000000013187, GL0000000013598, GL000000013827, GL0000000014422, GL0000000015780, GL0000000016606, GL000000018358, GL000000018715, GL000000018714, GL000000019579. Ghaziabad Branch: GL0000000013338, GL0000000014145, GL0000000014437 GL0000000017490.

Kirari Chowk Branch: DV2000000011768, DV2000000010200, DV2100000006923 DV2100000022239. DV2100000021928. DV2100000022207, DV2100000022180. DV2200000009044, GL0000000009721, DV2100000025318, GL0000000011497 GL000000012290, GL0000000013111, GL0000000013150, GL0000000013498. GL000000013643, GL0000000014095, GL0000000014131, GL0000000019343.

Mayur Vihar Branch: DV2100000007147, DV2100000023229, DV2200000007687 DV2200000009288, GL0000000013282, GL0000000013591, GL0000000015925, GL0000000016617, GL0000000016736, GL0000000016851, GL0000000016858, GL0000000016862, GL0000000017081, GL0000000017090, GL0000000017266. GL0000000017766, GL0000000019895.

Noida Bhangel Branch: DV2400000014695, GL0000000009849, GL0000000012574, GL000000013966, GL0000000015098, GL0000000016142, GL0000000017172, GL0000000017984, GL0000000018566, GL0000000019309, GL0000000019637, NIT BK Chowk Branch: GL0000000011304, GL0000000012821, GL0000000013321

GL0000000014416, GL0000000018303, GL0000000018309, GL0000000019236,

GL000000021010, GL0000000021018, GL0000000021203. Rohini SEC 5 Branch: GL0000000014624, GL0000000015814, GL0000000019229 Raghuveer Nagar Branch: DV2000000012357, DV2100000016035,

GL000000009667, GL0000000013601, GL0000000013615, GL0000000014093. GL0000000014387

Pratap Vihar Branch: - GL0000000018272.

Palwal Branch: - GL0000000020044, GL0000000020322.

For more details, please contact TruCap Finance Limited (Formerly known as Dhanvarsha Finvest Ltd)

Contact Person: Satish Kumar Contact Number(s): 9560735444

TruCap Finance Limited (Formerly known as Dhanvarsha Finvest Ltd) reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice.)

(Formerly known as Dhanvarsha Finvest Ltd)

TruCap Finance Limited

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED A Tata Power and Delhi Government Joint Venture Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009 Tel: 66112222, Fax: 27468042, Email: TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No.: U40109DL2001PLC111526, Website: www.tatapower-ddl.com

> Aug 24, 2022 NOTICE INVITING TENDERS

> > DCB BANK

Authorized Officer

TATA Power-DDL invites tenders as per following details: Estimated Availability

Last Date & Time of Bid Submission Tender Enquiry No. Cost/EMD of Bid Date and time of Work Description (Rs.) Document Opening of bids TPDDL/INS/ENQ/200001452/22-23 13.09.2022:1400 Hrs/ 24.08.2022 Standard Fire & Special Perils and 13.09.2022:1500 Hrs Burglary Insurance TPDDL/INS/ENQ/200001453/22-23 13.09.2022;1400 Hrs/ 24.08.2022 NIL Cyber Security Insurance 13.09.2022;1500 Hrs Complete tender and corrigendum document is available on our

website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

Contracts - 011-66112222

POSSESSION NOTICE

Place: New Delhi

Undersigned the Authorised Officer of the DCB Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co- borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the The borrowers and co-borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column

no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken possessions of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

No.	Loan Account	Borrowers / Co-borrowers	Demand Notice	Possession
1	DRBLDEL00455138 and DRBLDEL00516943	Mr Rahul Goyal, Gopal Goyal and Mrs Neha	13-06-2022	

Amount Demanded: Rs. 48,58,630.94/- (Rupees Forty Eight Lakh Fifty Eight Thousand Six Hundred Thirty and Paisa Ninety Four Only)

Description of Secured Assets: RZF-1/118, 1 Shop At Stilt, Entire Ugf & Tf, Gali No. 1, Mahavir Enclave, Palam Dabri Road, New Delhi - 110045.

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the DCB Bank Limited for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon. Date: 24-08-2022

DCB BANK POSSESSION NOTICE

Undersigned the Authorized Officer of the DCB Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co- borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the

no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken possessions of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

The borrowers and co- borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column

Sr. No.	Loan Account	Borrowers / Co-borrowers	Date of Demand Notice	Date of Possession
1	DRBLDEH00425491	Gagan Kumar, Subhash Chandra Khera and Kajal Khera	09.09.2019	
Ап	nount Demanded: Rs. 2	0,43,546.62/- (Rupees Twenty La	kh Forty Three Th	ousand Five

Hundred Forty Six and Paisa Sixty Two Only) Description of Secured Assets: House on Khasra No. 35 Kha, Situated At Mauza Adholwala, Pargana Parwadoon, Dehradun, Uttarakhand - 248001

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the DCB Bank Limited for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon.

Date: 24-08-2022 Authorized Officer Place: Dehradun

PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 55-56, 5th Floor, Free Press House, Nariman Point, Mumbai-400 021, Tel: 91-2261884700 PEGASUS

POSSESSION NOTICE [RULES 8 (1)] (For Immovable Property)

Whereas the Authorised Officer of Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd (PARPL) underThe Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued Demand Notice dated 29/09/2021 calling upon the borrower M/S Arihant Industries (Borrower) ,Smt. Rashmi Jain (Co-Borrower/Mortgagor) andSh. Aman Jain(Co-Borrower) all being Borrower/Co-borrowers/Mortgagorto repay the amount mentioned in the notice being Rs.1,47,46,940.89/- (Rupees One Crore Forty Seven Lakhs Forty Six Thousand NineHundred Fortyand Eighty Nine Paisa Only) as on10/09/2021 together with further interest, costs, charges and expenses thereon w.e.f. 11/09/2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice. Dues of the said borrower alongwith underlying security interest was assigned in favor of Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd. acting in its capacity as Trustee for PEGA-SUS GROUP THIRTY-NINE TRUST 1 (Pegasus) by RBL Bank Ltd. vide Assignment Agreement dated 31/03/2021 under the provisions of Section 5 SARFAESI ACT 2002. PARPL has stepped into the shoes of the RBL and all the rights, title and interest of RBL

Borrowers and PARPL exercises all its rights as the SECURED CREDITOR. Pursuant having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the Authorised Officer has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rule, 2002 on 17/08/2022.

with respect to the financial assets along with underlying security interests, guarantees,

pleadges have vested with PARPL in respect of the Financial Assistance availed by the

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The Borrowers/Co-borrowers/ Mortgagorin particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Pegasus for an amount of Rs. 1,47,46,940.89/- (Rupees One Crore Forty Seven Lakhs Forty Six Thousand Nine Hundred Forty and Eighty Nine Paisa Only)as on10/09/2021 together with further interest, costs, charges and expenses thereon w.e.f. 11/09/2021 Description of immovable property

Details of Secured Asset: All that piece and parcel of Plot of land area admeasuring 68.75

sq. mtr., bearing Plot No. 202, in Block No. C-1, alongwith whole of structure constructed whatsoever thereon, fitted with all fixtures and fittings situated at in lay-out plan of Yamuna Vihar, Ghonda Residential Scheme, Illaga Shahdara, Delhi-110053, Property bounded as : East: Road 9 ft. wide; West: Plot No. 201; North: Service Lane; South: Road 5 Mtr. Place: DELHI **Authorised Officer**

Date: 17/08/2022

Pegasus Assets Reconstruction Private Limited Trustee for Pegasus Group Thirty Nine Trust 1

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Office: 'Radhika', 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangoura, Ahmedabd-380009 Branch Office: Taipuriya Palace, Above Kajaria Tiles, Near Kukral Pull, Beside Zarista showroom.

Shakti Nagar, Faizabad Road, Lucknow-226016 DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Date And Securities Are Given As Under

ou The Below Mentioned Borrower, Co-borrowers And Guarantors Have Availed Loan(s)/ Financia acility(ies) From HDB Financial Services Limited By Mortgaging Your Immovable Propertie securities) And Defaulted In Repayment Of The Same. Consequent To Your Defaults Your Loan Was lassified As Non-performing Asset. Subsequetly, The Company Has Issued Demand Notice Under ection 13(2) Of The Securitization And Reconstruction Of Financial Asset And Enforcement C acurity Interest Act, 2002 (the Act). The Contents Of Which Are Seing Published Herewith As Per Section 13(2) Of The Act Read With Rule 3(1) Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 As And By Way Of Alternate Service Upon You. Details Of The Borrowers, Co-borrowers, Loan Account to Loan Amount, Demand Notice Under Section 13(2) Date, Amount Claimed in The Notice, NP

AMBER MARKET NAKA CHARBAGH LUCKNOW-226001 UTTAR PRADESH - And Also MUNICIPAL HOUSEND: 368/14/01/023 (22) - KRASRA NO. 98 TO 121 AND 130 TO 141 AND 186 . SITUATED AT MCHALLA LAKAD MANDI LUCKNOW-226003 - SUNEEL KUMAR MISHRA- 368/72/22 LAKAD MAND! SDTJ LKO LDA T6C! LMT-564 - LUCKNOW-22600. JTTAR PRADESH - MANJU MISHRA - 358/72/22 LAKAD MANDI SDTGJ LKO LDA T6 C1LMT 564 - LUCKNOW-226003 UTTAR PRADESH; LOAN ACCOUNT NO.7204898/13112548 LOAN AMOUNT: Rs.2133412/-(Rupees Twenty One Lakhs Thirty Three Thousand Four Hundred Twelve Only) by loan account number 7204898and to the tune of Rs.389000. Rupees Three Lakhs Eighty Nine Thousand Only) by loan account number13112548 DEMAND NOTICE DATE: 22.07.2022; AMOUNT CLAIMED:Rsi 2993364.84/- (Rupee Fwenty Nine Lakhs Ninety Three Thousand Three Hundred Sixty Four and Paise Eighty Four Only) as of 12/07/2022 and future contractual interest till actual realization together with ncidental expenses, cost and charges etc.; NPA DATE: 02:06:2022; DETAILS OF SECURITY:All the piece and parcel of the property bearing Municipal House No 68/014/01/023(22) Built on Plot No 14 over Khasra No. 98 to 121 & 130 to 141 & 186 min admeasuring 594 sq. ft, Situated at Mohalla- Lakad Mandi, Ward - Haider Ganj -I, teshil & District-Lucknow, Bounded as below: East Plot No. 15 West: Plot No. 13, North Plot No. 8

NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWERS: RAMA ELECTRONIC - SHOP NO. A 8

NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWERS: HARENDRA, CHOUDHARY-H NO. 63 ALKA PURI NEAR TAGORE NAGAR DAYAL BAGH AGRA-282005 UTTAR PRADESH HARENDRA CHOUDHARY - PLOTING 03, SITUATED AT ALKAPURI COLONY MAUZA NAGLA PADI | AGRA-282005 - PRETI CHAUDHARY - H.NO. 03, ALKA PURI NEAR TAGORE NAGAR DAYAL BAGH, AGRA UTTAR PRADESH- 282005 - MANGAY LAL - HINO, 03, ALKA PURI NEAR TAGORE NAGAR DAYAL BAGH AGRA LITTAR PRADESH-282005 - YEER MAT H NO 03. ALKA PURI NEAR TAGORE NAGAR DAYAL BAGH AGRA-282005 LITTAR PRADESH: LOAN ACCOUNT NO.2201884: LOAN AMOUNT: Rs. 6769994/(Rupees Sixt) Seven Lakhs Sixty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Four Only); DEMAND NOTICE DATE: 20.07.2022; AMOUNT CLAIMED:Rs.5407972.49/- (Rupees Fifty Four Laktis Seven housand Nine Hundred Seventy Two and Paise Forty Nine Only) as of 14/07/2022 and future ontractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charge etc.: NPA DATE: 02.06.2022; DETAILS OF SECURITY: All the piece and parcel of the property pearing Plot No. 03. Measuring area 209.02 sq mtr. situated at Alkapun Colony, Mauza Nagla Padi Teshil and Distl, Agra. Bounded as: East: Road 9.14 Meter Wide, West: Plot No.12 North: Plot No. 04, South: Plot No. 02

NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWERS: H K GARMENTS- 12 HAZI KARIM BUX COMPLEX BEHIND KUMAR TALKIES BAREILLY-243122 UTTAR PRADESH - And Aliso - D-1 B-56 DEENA DAYAL PURAM NEAR STATE BANK OF INDIA BAREILLY-243001 - And Also SHOP NO.47 AND 48 HAJI KARIM BUX MARKET BEHIND KUMAR TALKIES BAREILLY BAREILLY-243001 UTTAR PRADESH - HARISH KUMAR - 8 58 DD PURAM BAREILLY 243001 UTTAR PRADESH - MONITA MALIK - B 55 DD PURAM BAREILLY-243001 UTTAF PRADESH - SUMIT MALIK - B 58 DO PURAM BAREILLY-243001 UTTAR PRADESH: LOAN ACCOUNT NO.11713106/4232425; LOAN AMOUNT; Rs.897000/-(Rupees Eight Lakhs linety Seven Thousand Only) by loan account number 11713106and to the tune of Rs. 5000000/- (Rupees Fifty Lakhs Only) by loan account number 4232425. DEMAND NOTICE DATE: 22.07.2022; AMOUNT CLAIMED: Rs. 4924847.891- (Rupees Forty Nine Lakhs Twenty Four Thousand Eight Hundred Forty Seven and Paise Eighty Nine Only) as of 12/07/2022, and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc..; NPA DATE: 02.06.2022 : DETAILS OF SECURITY: All the piece and parcel of the property bearing House No D-1/B-58 admeasuring 153, 144 sq. m situated at Deen Dayal Puram Tehsil and Distt Barielly. Bounded as : East: Stadium Ramleela Maidan, West: Plot No.09. North: House No. 57, South: House No. 59

NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWERS: PAPPY SUGAR PRODUCT - PAPPY SUGAR PRODUCT 149 B BIHARMAN NAGLA SANJAY NAGAR BARFILLY - BARFILLY - 24312 ITTAR PRADESH And Also - PLOT NO 83 KHASRA NO 1272 BIHARMAN NAGLA BAREILLY AREILLY-243122 - SAPANA KASHYAP - 149 B SANJAY NAGAR BAREILLY-243122 UTTAR PRADESH - AJAY KUMAR KASHYAP - 149 B SANJAY NAGAR TRIMURTI BHAWAN BAREILLY BAREILLY-243122 UTTAR PRADESH: LOAN ACCOUNT NO. 13728331/ 5892128: LOAN AMOUNT: Rs.543000/- (Rupees Five Lakhs Forty Three Thousand Only) by loan account number linety Nine Only) by loan account number5892128; DEMAND NOTICE DATE: 22.07.2022 AMOUNT CLAIMED:Rs.3849987.73!- (Rupees Thirty Eight Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred Eighty Seven and Paise Seventy Three Only) as of 12/07/2022 and future contractual terest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc. NPA DATE 02.06.2022 : DETAILS OF SECURITY: All the piece and parcel of the property bearing Plot of land bearing number No. 83 admeasuring 174.72 sq. mt. vide khasra no. 1272 situated at revenue Sharmaan Nagta Teh. Dist. Barielly which is bounded as : East No. Plot No.84, West: Plot. no. 82

NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWERS: MS CITY STAR CORPORATION - 568/1/ AZARUS - 568/261 KAILASHPURI AHAMADPUR ALAMBAGH LUCKNOW-226005 UITTAS RADESH: LOAN ACCOUNT NO.4914841; LOAN AMOUNT: Rs. 73738131-(Rupees Sevent Three Lakhs Seventy Three Thousand Eight Hundred Thirteen Only), DEMAND NOTICE DATE: housand Seven Hundred Seventy Three and Paise Ninety Nine Only) as of 12/07/2022 and future NPA DATE: 02.06.2022; DETAILS OF SECURITY: All the piece and parcel of the property bearing louse No. 568/261 construted over Khasra no 34, min admeasuring 252 sq. mtr. situated at Gram lasanpur, Ward - Babu Kunj Bihanlal Nagar, Teshil, Dist, Lucxknow, Bounded as: East. Plot of Nazk Chandra, West: Land of Chheda, North: Aaraji Digar, South: Land of Sarju

NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWERS: ARAVENTERPRISES - PLOT NO 57 KH NO 8 AVANTI ENCLAVE MAUZALAKAWALI AGRA-282001 UTTAR PRADESH - And Also PLOT NO IAROLI AHIRE-PLOT PRAMOD W-PLOT AGRA-282001 - SONU RATHOR - PLOT NO 48 SOMATI ENCLAVE BAROLI AHIR AGRA AGRA-282001 UTTAR PRADESH - BIHAGWAN DEVI LOT NO 46 GOMATI ENCLAVE BAROLI AHIR AGRA AGRA-282001 UTTAR PRADESH. LOAN ACCOUNT NO.13241344/8260636: LOAN AMOUNT: Rs.485184/(Rupees Four Lakins Eight ive Thousand One Hundred Eighty Four Only) by loan account number 13241344and to the tune of Rs. 2649312/- (Rupees Twenty Six Lakhs Forty Nine Thousand Three Hundred Twelve Only) by an account number8260636; DEMAND NOTICE DATE: 22.07.2022; AMOUNT CLAIMED: Rs.3582684.25/- (Rupees Thirty Five Lakhs Eighty Two Thousand Six Hundred Eighty Four and Paise Twenty Five Only) as of 12/07/2022 and future contractual interest till actual realization ogether with incidental expenses, cost and charges etc. NPA DATE: 02.06.2022; DETAILS OF SECURITY: All the piece and parcel of the property bearing Plot No 46 admeasuring 134 sq. yards or 112 03 sq.mtr having measurments 19 fts. 4 inch x62ft, part of Khasra No 23A & 23 B, Chakband Khasra no 35. Gomti Enclave, Mauza Baroli Ahir. Tehsil & District Agra. Boundaries as: East: Plot of ramed, West: Plot of Gayatri Devi, North: Rasta24 ft wide., South: Plot of others.

NAME OF THE BORROWER & CO-BORROWERS: AGRAMAL TRADING COMPANYO VILLAGE AURANGABAD KASER TEHSIL DIBAI BULANDSHAHR BULANDSHAHAR-20339 JTTAR PRADESH-AGRAWAL TRADING COMPANYA HOUSE NO.448 AREA 83.5 Q METERS PART OF KHASRA NO 477 SITUATED AT MOH. MANDI HARDEV ANDAI NARENDRA R - 118A. AURANGABAD KASER AURANGABAD KASAIR KASER KHURI ACCOUNT NO 9268186: LOAN AMOUNT: Rs. 2169627/-(Rupees Twenty One Lakhs Sixty Nin housand Six Hundred Twenty Seven Only); DEMAND NOTICE DATE: 20.07.2022; AMOUNT CLAIMED:Rs 2358809.01/- (Rupees Twenty Three Lakhs Fifty Eight Thousand Eight Hundred Nine and One Paisa Only) as of 12/07/2022 and future contractual interest till actual realization pether with incidental expenses, cost and charges etc.: NPA DATE: 02.06.2022; DETAILS OF SECURITY: All the piece and parcel of the property bearing House No. 448 area 83.16 Sq. onto Part of Khasra No 477 Situated at Mohalla Mandi Hardey Andar Chungi Dibai Teshil Dibai Disti ilandshar Boundaries as East, Private Rasta, West, Empty Plot, North: Field Of Babu Ram,

ou The Borrower/ Co-borrowers And Gaurantors Are Therefore Called Upon To Make Payment Of The Above Mentioned Demanded Amount With Further Interest As Mentioned Hereinabove In Full Aithin 60 Days Of This Notice Failing Which The Undersigned Shall Be Constrained To Take Action nder The Act To Enforce The Above-mentioned Securities. (borrower's Attention Is invited To Provisions Of Sub-section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available, To Redeem The Secured Assets.) Please Note That As Per Section 13(13) Of The Said Act, You Are Restrained From Transferring The Above-referred Securities By Way Of Sale, Lease Or Otherwise Without Our Consent And Any Non Compliance Of Section 13(13) Of The Act is Punishable Under

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. KUSH KAPOOR PHONE: 9838076150-VIKAS ANAND - 9711010384

DATE: 24.08.2022 SDI- FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED, AUTHORISED OFFICER

FORM NO. INC-26'

PURSUANT TO RULE 30 OF THE

COMPANIES(INCORPORATION)RULES 20141

Before the Regional Director, Northern

Region, New Delhi IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013, SECTION 13(4) OF COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE

30(5)(A) OF THE COMPANIES

(INCORPORATION) RULES, 2014 AND IN THE MATTER OF

UTTAR CHHATTISGARH RAJYA

VIDYUT UTPADAN LIMITED

SARVAPRIYA VIHAR NEAR HOUJ KHAS

METRO STATION SOUTH WEST DELH

NEW DELHI-110016, IN.

NOTICE is hereby given to the General Public hat the Company proposes to make application

the Regional Director under section 13 of the

ompanies Act, 2013 seeking confirmation of

Iteration of the Memorandum of Association of

assed at the Annual General Meeting held on 22nd day of April, 2022 to enable the Compa

to change its Registered office from NCT of Delhi to State of Chhattisgarh.

Any person whose interest is likely to be affected

the proposed change of the registered office

riplaint form or cause to be delivered or send

by registered post of his/her objection supported

by an affidavit stating the nature of his/her interest

and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, New Delhi at B-Z Wing,

2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the

date of publication of this notice with a copy of

the applicant company at its registered office at

13/13, Sarvapriya Vihar Near Houj khas Metro

Station South West Delhi New Delhi-110016. In

For and on behalf of

Nirmal Kumar Bizora

Managing Director DIN: 08678408

M/s Uttar Chhattisgarh Rajya Vidyut Utpadan Limited

House No. PP-61, Parthivi Province, Near Sankalp Hospital, Sarona

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

Raipur, Chhattisgarh-492001

e address mentioned below

Date: 24.08.2022

f the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor

the company in terms of the special resolution

Cholamandalam investment and Finance Company Limited Corporate Office: No.2, Dare House, 1st Floor, NSC Bose Road, Chennai - 600 001. Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Contact No:

Mr. Sudhir Tomar, Mob.No.9818460101 E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Finance Company Limited the same shall be referred herein after as Cholamandalam investment and Finance Company Limited. The Secured Assets will be sold

2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower / Mortgagor (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the Symbolic/Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Cholamandalam investment and

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,

on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction. It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website https://chola-lap.procure247.com/

Date & Amount | Descriptions of the property Reserve Price, Earnest S.N. Account No. and Name of borrower, as per Demand Money Deposit & Bid co- borrower, Mortgagors /Properties Notice U/s 13(2) Increment Amount (In Rs.) Submission Last Date

Loan Account No . X0HEEDL00002786380, 01/10/2021 X0HEEDL00002945456 & Rs. 1,42,91,873.42 HE02EDL00000002262 [Rupees One Crore 1.PANKAJ CHAUHAN Forty Two Lakh Ninety At: 213, Second Floor, Kohat Enclave Pitampura, North West Delhi, New Delhi-110034 2. TULSI CHAUHAN At: 213, Second Floor, Kohat Enclave Three and Pitampura, North West Delhi, New Delhi-110034

One Thousand Eight Hundred Seventy Paise Forty Two Only)

12.06.2021

Only)

Rs.46,63,663.7

Six Hundred Sixty

Three & Paise Seven

Rupees Forty Six Lakh

Sixty Three Thousand

FLOOR WITH ROOF RIGHT "SAID FLOOR", BUILT ON PROPERTY BEARING NO. 213, HAVING AREA ADMEASURING 210 SQ. YDS OR 175 .15 SQ.MTR., SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF "KOHAT CO-OPERATIVE HOUSE BUILDING SOCIETY LTD". NOW KNOWN AS KOHAT ENCLAVE, PITAM PURA, DELHI WHICH IS BOUNDED AS UNDER, EAST - PLOT NO. 214, WEST - SERVICE LANE, NORTH - SERVICE LANE, SOUTH - ROAD 30'FT WIDE

All that piece and parcel of the property bearing

No.11/A, admeasuring 75 sq.yds out of Khasra

No.5758576 situated in the revenue estate of

Village-Roshan Pura, in Block-P-1 in the abadi

known as New Roshan Pura, Najafgarh, New Delhi

ALL TAHT PIECE AND PARCEL OF ENTIRE SECOND

Rs. 1,70,00,000 /-Rs. 17,00,000 Rs.25,000/-

Rs. 30,00,000 /-

Rs. 3,00,000/-

Rs.25,000/

28.09.2022 at 10.00 a.m 27.09.2022, 10.00 am to 5.00p.m

E-Auction Date and

Time, EMD

Inspection Date

As per appointment

28.09.2022 at 10.00 a.m 27.09.2022,

10.00 am to 5.00p.m

As per appointment 1. All Interested participants / bidders are requested to visit the website https://chola-lap.procure247.com/ & https://www.cholamandalam.com/auction-

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

notices. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact (Muhammed Rahees - 81240 00030), Ms.Procure247.; Mr. Alpesh Borisa Cell No. 7046612345/ 9898056524,. Email id: alpesh@procure247.com, suraj@tender247.com, parin@tender247.com 2. For further details on terms and conditions please visit https://chola-lap.procure247.com/ & https://www.cholamandalam.com/auction-notices to take part in e-auction.

THIS IS ALSO A STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 Sd/- Authorised Officer Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Place: DELHI, NCR Date: 24-08-2022

3. JMD ENTERPRISES

1. BHAGAT RAJ

2. MRS NISHA

DELHI, NEWDELHI - 110043

THROUGH ITS PROPRIETORS

Rithala New Delhi, New Delhi-110086

At: 2nd Floor Khasra No -1141 Gali No 16 Village

Loan Account No . X0HEDHE00001013193

At: H NO.11 A BLOCK-PI NEW ROSHANPURA SHIV

MANDIR ROAD NAJAFGARH, NEWDELHI - 110043

At: RZ-PI-11A PI BLOCK NEW ROSHANPURA NEW

New Delhi

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक

2. श्री महेश चौहान पुत्र श्री कंचन सिंह चौहान (निदेशक/गारंटर)

3. श्री नीरज कुमार पुत्र श्री प्रकाश दत्त शर्मा (निदेशक/गारंटर)

पता:– हाउस नंबर –231, साउथ सोती गंज, कैंट मेरठ, मेरठ (यूपी) – 250001.

इसके अलावा:– हाउस नंबर –146 मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली–110 021.

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेत्)

(वित्तीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिमृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा 13(4)

के तहत दिनांक 28.03.2022 को दी गई पूर्व सूचना को वापस ले लिया गया है)

नयम 3 के राज रोक्सन 13(12) में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के लागने उल्लिखित तिथि को क्षिमाण

गेटिस जारी किया था : ऋणियाँ / प्रबन्धकर्ता / जन साधारण को यह सुचित किया जाता है कि उन ऋणियाँ, जिन्हों

कावा रकम चकता नहीं किया, के परिसम्पत्तियों का जिनका विवरण निम्न है, अपोहरलक्षरों के उपर्यक्त एक्ट र

ानता को सुचित किया जाता है कि वह सम्परित का किसी भी प्रकार का सीदा / व्यवहार न करें, सम्परित के संबंध ने

किया गया शेव्यवहार हरियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक), को देथ राशि व उन्न पर व्याज व अन्य व्यय आदि जैस कि नीचे दिये खाले के सम्मुख उत्लिखित किया गया है के अध्याधीन होगा : उचारकर्ता का व्यान प्रतिमृति अस्तियों वं

मेधन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में जबिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपवंधों की ओर आकृष्ट किया

हिस्सों सहित) विवरण

भी नरेंद्र कुमार तुलिसयान पुत्र श्री भगवती प्रस्ताद

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक

र्श0 501 उसके बाद सीडी, दक्षिण सुता आरमान

विनांकः 24.08.2022, स्थानः लखनक प्राधिकृत अधिकारी, इतियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)

क. बाता/ऋणी/बंधक परिसम्पत्ति भ्रभारित/बंधक/दृष्टिबंधक की गई परिसम्पत्ति स्र वं स्वामी का नाम जमानतकर्ता (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं

ऋणी / बंधककर्ताः श्री नरेंद्र पांचवी मंजिल, कृती अपार्टमेंट, उद्यान ।। रक्षा संय

कुमार तुलसियान पुत्र श्री सारदा नगर लखनऊ क्षेत्रफल 82.72 वर्ग मैटर स्वामी भगवती प्रशाद तुलसियान। भी नरेड कुमार तलसियान पत्र श्री अगटारी प्रशा

जमानतकर्ताः श्री नरेंद्र कुमार युलस्थियन (पंजीकृत सेल डीड संठ 3864 दिनांक

त्वसियान सभी निवासी 30.03.2017 वही रो0 01 जिल्द रो0 22112 पेज 177 रो

e07, एकआई गंगा सागर 204 तक) **चीहरी (बींड के अनुसार): पूर्व** खुला आसमान

अपार्टमेंट राम तीरुप मार्ग, **पश्चिम** पलेट संD 503 उसके बाद गलिकारा, **उत्तर** पर्वट

संपर्वित निवम 8 के तहत निम्न दर्शित तिथि से करूरा ले लिया है। विशेषतः मालिक सम्पत्ति एए अ

अधोहरलाक्षरी जो कि इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी है ने सि

पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पठयकम के अलावा) में से किसी भी माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेंगे।

Indian Bank

ALLAHABAD

मोबाइल नंबर– 9997836291, 9119068138

मेरठ -250001

श्री विजय चौधरी पुत्र श्री जगदीश सिंह (गारंटर)

5. श्रीमती लेम कौर पत्नी श्री सोहन सिंह (बंधक/गारंटर)

नोटिस को कुछ तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है।

🛕 इलाहाबाद

देनाकः 08.08.2022

इंडियन बैंक

के स्थामी का नाम जमानतकर्ता

का नाम एवं पता

शाखाः उजरियांव

भारत सरकार का उपक्रम

punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सर्किल शस्त्र, पीएनबी हाउस, भेल, सेक्टर IV, हरिद्वार-249403 ई-मेल:CS8238@PNB.CO.IN (सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद , मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋर्णियों/गारंटरों को एतदंदवारा सुचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनिमय 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भूगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृप्या यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अन्दर भूगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/ सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रकिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षापात किए बिना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। यह नोटिस आपके खिलाफ बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको संबोधित किया गया है। खाता संख्या 0924008700011990 (CC), 0924001L00000626 (GECL), 0924001C00000591(TL) और 092400SN0000011(TL) को पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सिविल लाइन्स रुड़की, हरिद्वार द्वारा मैसर्स वैग्स फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड ग्राम रायपुर भगवानपुर रुड़की, जिलाः हरिद्वार, उत्तराखंड –247667 को क्रेडिट सुविधाओं उपलब्ध है। आपके द्वारा सुरक्षित ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक द्वारा लागू की जाने वाली सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

ऋणी/गारंटर/बंधक का नाम एवं पता स्रक्षा/संपत्ति का विवरण 1. मै० वेग्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. 1. कंपनी के संपूर्ण स्टॉक और बही ऋणों का दृष्टिबंघक। कारखाना:- औद्योगिक भूखण्ड, खाता संख्या ३०८, खसरा संख्या, ३१०,जो ग्राम 2. कंपनी की अन्य सभी मौजूदा परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक। 3. कंपनी के सभी संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियों रायपुर परगना एवं तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार–247667 में स्थित है। कार्योलय:- प्लॉट नंबर 8–16, साउथ सोती गंज, गुरुद्वारा रोड (खुनी पुल) का दृष्टिबंधक। मेरठ−250000, ई–मेल:– vagspharmaceuticals@gmail.com

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में , अधिनियम की धारा 13 की उप–धरा (४) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता हैं।

कम्प्रा नोटिस की तिथि

बकाया शेष (फ. में)

₹ 30,22,797.00

+ ब्याज एवं अन्य

खर्च अतिरिक्त

थानाध्यक्ष

थाना नांगलोई, दिल्ली

फोन: 011-25949470, 7065036127

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना संदर्भित सुरक्षित आस्तियां को आप बिकी,

नोट: सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत जारी सभी पिछले नोटिस और की गई कारवाई सहित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत 28.07.2022 को जारी

स्थान : हरिद्वार

4. कारखाना भूमि एवं भवन बिक्री विलेख संख्या-1471, रु. 12,12,87,738.83/-खाता संख्या–19, खसरा संख्या–310 जिसका कुल पता:– हाउस नं0. 2 पीएसी रोड, गोकुलधाम कॉलोनी, सुभाष नगर, हरिद्वार– क्षेत्रफल 1366 वर्ग मीटर है। जो रायपुर परगना भगवानपुर 249407, इसके अलावा:— ग्राम + पोस्ट ऑफिस—चचिली थाना—जेवर, जिला— गौतम तहसील रुड़की में स्थित है, जिसकी सीमाऐं इस प्रकार है:-बुद्ध नगर यूपी−203207, इसके अलावा:– हाउस नंबर 1 टिहरी विस्थापित कॉलोनी पूर्व में− 25 फीट चौड़ी सड़क , पश्चिम में −खसरा (w.e.f. 01.08.2022) हरिद्वार—249407. ई—मेल:— Vc12345@gmail.com मोबाइल नंबर— संख्या—10 की भूमि, उत्तर में—खसरा संख्या—309 की करने को गया था जो पंजीकत डाक द्वारा भेजा भूमि , दक्षिण में—खसरा संख्या—310 की भूमि।

संपत्ति स्वामी – मै० वैग्स फार्मास्यटिकल्स प्रा० लि० के पक्ष

पता:— 253, गली नंबर— 6, दौलत राम कॉलोनी, आर्य समाज रोड दौराला तहसील में 30 साल की लीज डीडा। सरधना जिला मेरठ− 250221, इसके अलावा:– हाउस नं0 593 दौलत राम कॉलोनी 5. आवासीय प्लॉट खाता नंबर−234, खसरा नंबर− 512/2 पोस्ट–दौराला जिला–मेरठ यूपी–250221, ई–मेल:– Vc12345@gmail.com, कुल क्षेत्रफल 16610 वर्ग मीटर है। जो छाजरसी (लोनी), परगना: लोनी, तहसील: दादरी, जिला गौतम बृद्ध नगर का (इंद्रपुरम गाजियाबाद के पास स्थित है जिसका जीडीए पत्र संख्या-199/नियोजन/अनुभाग 2017 दिनांक 23.12 इसके अलावा:— 539, रायपुर, हरिद्वार –247661, इसके अलावा:— ए –276 सोती गंज 2017), जिसकी सीमाएँ इस प्रकार है:— पूर्व में— चक रोड पश्चिम में – सावन सिंह की खुली भूमि, उत्तर में– श्री नरेंद्र पाल सिंह की खुली भूमि, दक्षिण में- वीर पाल की खुली पता:– बसंत विहार, वार्ड नंबर –4 बिनौली रोड बड़ौत , जिला– बागपत यूपी– 250611 भूमि, श्री पाल, बाग मल। संपत्ति स्वामी – श्रीमती लैम कौर

प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड,

नीलामी बिक्री सचना

xx Karnataka Bank

Head Office, Mangaluru - 575 002 CIN: L85110KA1924PLC001128

अचल सम्पत्ति की बिक्री सुचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के

नियम 9(1) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-

एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित

किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका

कर्णाटका बैंक लि., प्रतिभत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका

कर्णाटका बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 21.09.2021 को सांकेतिक

कब्जा किया गया है की अधोलिखित 1)मै. हरियाणा खाद एवं बीज भंडार, प्रतिनिधित्व द्वारा

उसके प्रॉप्राईटर 1) धरमवीर, पुत्र सूरजभान, पताः रेलवे रोड, हीरो शो रूम के निकट, गनौर,

जिला सोनीपत, हरियाणा-131101, 2) श्री सूरजभान सिंह, पुत्र श्री हरि सिंह, 3) श्रीमती

शीला देवी, पत्नी श्री धरमवीर, दोनो (2) एवं (3) निवासीः मकान नं. 112, ग्राम, चिरास्मि,

तहसील गनौर, जिला सोनीपत जो ऋणधारक/गारंटर/सह-देनदार है, से कर्णाटका बैंक लिमि.

गनौर शाखा, रेलवे रोड, विश्वकर्मा मंदिर के निकट, शर्मा हॉस्पीटल के सामने, गनौर-

131101, सोनीपत-जिला, हरियाणा, प्रतिभूति क्रेडीटर के बकाये रु. 1,10,01,922.62 (रुपसे

एक करोड़ इस लाख एक हजार नौ सौ बाईस एवं पैसे बासठ मात्र) अर्थात् पी.एस

ओवरड्राफ्ट खाता सं. 2707000600000601 के अंतर्गत देय तथा 01.08.2022 से आगे के

भी वहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

तहसील गनौर, जिला सोनीपत का सभी भाग तथा हिस्सा।

पूर्वः अन्य की सम्पत्ति.

रु.45,00,000.00 (रु. पैतालिस लाख मात्र)

ब्याज एवं लागतों की वसूली के लिये 13.09.2022 को ''जैसा है जहाँ है'', तथा ''जो कुछ

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती शीला देवी के स्वामित्व में आवासीय सम्पत्ति खेवत नं. 398 मिन, खाता नं. 596, रेक्ट

एवं किल्ला नं. 40/8/2, 8/1, माप 271 वर्ग यार्ड्स, वाका मौजा अरहृनपुरी गढ़ी, केसरी, गनौर,

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी

जमा/भुगतान की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,50,000.00 (रु. चार लाख पचास हजार मात्र)

(ऋणधारकों/ मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध

समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की

(इस सूचना को ऋणधारकों/ गारन्टरों के लिये प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली-2002 के

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कर्णाटका बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक

अर्थात् www.karnatakbank.com पर शीर्ष ''बिक्री के लिये गिरवी परिसम्पत्तियां'' देखें।

ई-नीलामी का संचालन 13.09.2022 को 11.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप. तक 05

मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः https://bankauctions.in पर किया जायेगा

इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत

कराना होगा तथा मै. 4 क्लोजर, 605 ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038

सम्पर्क नं. 040-23736405, मोबाईल 8142000809, ईमेलः vinay@bankauctions.ir

तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी (अनुमानतः 12.09.2022 को) पर ऑन

पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति,

दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति

मो. 9319891680

ईमेल: delhiarm@ktkbank.com

वेबसाईट: www.karnatakabank.com

पत्नी श्री सोहन सिंह।

OSBI नर्वसमय माध्यम, कॉरपोरेट सेंटर, 3री मंजिल, बर्ल्ड टेड केंद्र आकेंड, कफ परेड, मुंबई - 400005 शुद्धिपत्र - 4

आरएकपी क्र.: SBI/ACV/2022-23/001 दिनांक: 20.06.2022 ओ. टी. सी. लॉक प्रबंधन सेवाओं की खरीद की आर एफ पी के संदर्भ में बोली जमा करने की अंतिम दिनांक को 30.08.2022 तक बढ़ा दिया गया है. आर एफ पी में किए गए संशोधन बैंक की वैबसाइट https://bank.sbi के प्रोक्योरमेंट न्यूज लिंक और https://e.tender.sbi/SBI/ पर 24.08.2022 तक डाल दिये जाएंगे.

स्थानः मुंबई उप महाप्रबंधक दिनांक: 23.08.2022 (कार्यान्वयन व रोल आउट)

हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड (हिंदुस्तान ग्रुप का एक उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः कंचनजंगा, (नवां तल) 18, बाराखंमा रोड, नई दिल्ली — 110001

CIN: L31300DL1959PLC003141, 🝎 मेल:investors@hindusthan.co.in वेबसाइटः www.hindusthanurban.com, फोनः +91-11-23310001-05 वीडियो कांफ्रेंस/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (वीसी/ओवीएएम') के माध्यम से आयोजित

होने वाली 82वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना यह सूचित किया जाता है कि एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में निर्धारित किए गए कार्यवाही के निष्पादन के इस संबंध में एमसीए और/या सेबी द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य लागू परिपत्रों के साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किया गया, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी परिपत्र संख्या सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुपालन में हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('कंपनी) की 62वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार 27 सितंबर, 2022 को पूर्वाह 10:00 बजे (आईएसटी) वीसी / ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021–22 ('वार्षिक रिपोर्ट') की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 62वीं एजीएम बलाने की सचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("रजिस्ट्रार/आरटीए'वाई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपीएस') के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, 62वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hindusthanurban.com(स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com क्रमशः के साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL'')

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने . संबंधित डीपी के साथ इसे अपडेट करें और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उन्हें लिखकर आरटीए के साथ अपडेट करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को 62वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने वाली नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर 62वीं एजीएम के दौरान एवं उससे पहले एनएसडीएल की रिमोर्ट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती है।वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 62वीं एजीएम की सूचना में प्रदान

कृते डिंदुस्तान वर्षन इंफ्रास्ट्रक्बर लिमिटेड

नई विक्ली 22.08.2022

डिमांड नोटिस की तिथि

/देय राशि

आपको दिनांक

08.08.2022 को जारी

सरफेसी 13(2) नोटिस

जिसमें

ब्याज + अन्य प्रभार

भुगतान

गया था वह अप्राप्त

वापस आ गया।

प्राधिकृत अधिकारी

एमएल किमीवाला अध्यक्ष— विच और सचिव

द्रुकैप फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्यालयः पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, बिल्डिंग नं. 4, डी.जे. हाउस, पुराना नगरदास मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069, महाराष्ट्र जीएसटी नं.: 27एएएसीडी9887डी1जेडसी निगमित पहचान संख्याः एल24231एमएच1994पीएलसी334457

सार्वजनिक सूचना जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि बंधककृत स्वर्णाभूषणों की नीलामी का संचालन टुकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) द्वारा 26 अगस्त 2022

को 11.00 बजे मयुर विहार में किया जाएगा। शाखा पताः ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) पी-11

प्रथम तल, पाण्डव नगर, मयूर विहार 1, नई दिल्ली-110091 अपनी देयक बकाया धनराशियों का भुगतान करने में विफल हो चुके हमारे अनेक ग्राहकों के ऋण

खातों से संबंधित स्वर्णाभूषणों को नीलाम किया जाना है। नीलामी की हमारी सूचनाएं, इन उधारकर्ताओं को विधिवत रूप में निर्गत की गई हैं। शाखा नाम के साथ निम्न वर्णित हमारे अनेक ग्राहकों के अतिदेय ऋण खातों से संबंधित

स्वर्णाभूषणों की नीलामी की जानी है। दिलशाद कॉलोनी शाखाः DV2100000023193, DV2400000023132 GL000000014005, GL0000000014156, GL0000000014317, GL0000000014513

GL0000000015297, GL0000000015727, GL0000000017573, GL0000000018719. फरीदाबाद शाखाः DV2100000015731, DV2200000008760, DV220000001264 GL000000009551, GL0000000011979, GL0000000012373, GL0000000012710

GL000000012930, GL0000000013073, GL0000000013187, GL0000000013598 GL000000013827, GL0000000014422, GL0000000015780, GL0000000016606, GL000000018358, GL0000000018715, GL0000000018714, GL0000000019579. गाजियाबाद शाखाः GL000000013338, GL000000014145, GL000000014437 GL0000000017490. किरारी चौक शाखाः DV2000000011768, DV2000000010200, DV210000000692

DV2100000022239, DV2100000021928. DV2100000022180, DV2200000009044, GL0000000009721, DV2100000025318 GL0000000011497, GL0000000012290, GL0000000013111, GL0000000013150 GL0000000013498, GL0000000013643, GL0000000014095, GL0000000014131 GL0000000019343. मयूर विहार शाखाः DV210000007147, DV2100000023229, DV220000000768

DV2200000009288, GL0000000013282, GL0000000013591, GL0000000015925 GL000000016617, GL0000000016736, GL0000000016851, GL0000000016858 GL000000016862, GL0000000017081, GL0000000017090, GL0000000017266 GL0000000017766, GL0000000019895.

नोएडा भंगेल शाखाः DV240000014695, GL000000009849, GL000000012574 GL000000013966, GL0000000015098, GL0000000016142, GL0000000017172 GL000000017984, GL0000000018566, GL0000000019309, GL0000000019637 GL0000000020533.

बीके चौक शाखाः GL000000011304, GL000000012821 GL0000000013321, GL0000000014416, GL0000000018303, GL0000000018309 GL000000019236, GL0000000021010, GL0000000021018, GL0000000021203 रोहिणी सेक्टर 5 शाखाः GL000000014624, GL0000000015814, GL0000000019229 रघुवीर नगर शाखाः DV200000012357, DV210000001 6035, GL0000000009667 GL000000013601, GL0000000013615, GL0000000014093, GL0000000014387.

पलवल शाखाः GL0000000020044, GL0000000020322. अधिक विवरणों के लिए कृपया ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में

जिनसे संपर्क किया जाना है, उन व्यक्ति का नाम : सतीश कुमार

संपर्क संख्या : 9560735444

ट्रकैप फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात) के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिए नीलाम किए जानेवाले खातों की संख्या में परिवर्तन करने तथा नीलामी कं स्थगित / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ट्रकैप फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में धनवर्षा फिनवेस्ट लि. के रूप में अभिज्ञात

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड सीआईएन :L51909DL1983PLC016907

पंजीकृत कार्यालय : जी-4, बी-1, एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथरा रोड. नई दिल्ली-110044

दूरभाष नं. : 011-45795002, फैक्स :011-23755264 ई-मेल :compliance@blsinternational.net, वेबसाइट : www.blsintemational.com

कम्पनी के सदस्यों से एतद्वारा नोट करने के निवेदन किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रयोज्य प्रावधानों, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 2/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 तथा सामान्य परिपत्र सं. 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022 (''एमसीए परिपत्र''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, तथा SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (''सेबी सुचीबद्धता विनियम'') के अनुपालन में 38वीं एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए बीलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड (''कम्पनी'') की 38वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (''वीसी/ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से

38वीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निर्देश एवं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 उन सदस्यों के पास भेज दिये जायेंगे जिनके ई-मेल पते आरटीए अर्थात बीटल फाइनेंशियल कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार के पास 19 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो अपने नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए como-

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनसे निवेदन है कि वे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के परिप्रेक्ष्य में अपने डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए कम्पनी/रजिस्टार तथा कम्पनी के शेयर अन्तरण एजेंट (''आरटीए'') के साथ compliance@blsinternational.net/ beetalrta@gmail.com पर इसे पंजीकृत करा लें। 38वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कम्पनी की वेबसाइट https://www.blsintemational.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.nseindia.com पर

अधिनियम की धारा 91 तथा सेबी सुचीबद्धता विनियमों के विनियम के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022 से बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी।

कम्पनी अपने उन सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') प्लेटफॉर्म के माध्यम से 36वीं एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग दोनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार की सुविधा उपलब्ध करायेगी जिनके नाम 14 सितम्बर, 2022 (बुधवार) (''कट-ऑफ तिथि'') तक सदस्यों के रजिस्टर⁄लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे। सदस्य जिस भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं अथवा जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे ई-वोटिंग के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसकी रीति सहित ई-वोटिंग की प्रक्रिया के निर्देश 38वीं एजीएम की सुचना के भाग के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

जिन सदस्यों के पास डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं और वे अपना बैंक विवरण उपलब्ध/परिवर्तित/शुद्ध कराना चाहते हैं, वे इसे तुरन्त कम्पनी के पास न भेजकर सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार के पास भेजें। सदस्यों से अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को अपने बैंक खाते का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड भी उपलब्ध कराने का निवेदन किया जाता है। लाभांश का भुगतान करते समय आरटीए डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध डेटा का ही उपयोग करेगा। ऐसे डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों के मामले में जिन सदस्यों के पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण जैसे बैंक का नाम तथा शाखा का पता, शाखा का आईएफएससी, एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार तथा खाता संख्या आरटीए के पास ई-मेल द्वारा beetaIrta@gmail.com पर जमा करने का परामर्श दिया जाता है।

कृते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

धारक मेहता कम्पनी सचिव एवं अनपालन अधिकारी दिनांक : 23 अगस्त, 2022 स्थान : नई दिल्ली आईसीएसआई सदस्यता सं. एसीएस 40502

लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। स्थानः गनौर, हरियाणा कर्णाटका बैंक लि. के लिये दी कांगडा को—ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

नियम (9) के उप-नियम (1) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाये।)

(6)-(: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 नेतः leagal@kangrabank.com, legalf@kangrabank.com नेनलईट www.kangrabank.com

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभित हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि. जिसका प्रधान कार्यालय सी-29, कम्युनिटी सेन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में है तथा पंजी. कार्या.: 1916, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.01.2021 को जारी कर ऋणधारकों एवं मार्टगैजर श्री रवि खोसला, पुत्र विरेन्दर खोसला, निवासीः आरजेड-58, गली नं. 6, कैलाशपुरी, नई दिल्ली-110045, साथ हीं: श्री रवि खोसला, पुत्र विरेन्दर खोसला, निवासी: आरजेड-14, गली नं. 2, कैलाश पुरी एक्स्टें. पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 तथा श्री रवि खोसला, पुत्र विरेन्दर खोसला, निवासीः आरजेड-10, बी-14, गली नं. 8, कैलाश पुरी एक्स्टें. पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 तथा मार्टगैजर एवं स्युरिटी श्रीमती मधु खोसला, पत्नी श्री रवि खोसला, निवासीः आरजेड-14, गली नं. 2, कैलाश पुरी एक्स्टें. पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक समय-समय पर ऋण खाता के लिये लागू आगे के ब्याज, दंड ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ रु. 15,43,203/- (रु. पन्द्रह लाख तैंतालिस हजार दो सौ तीन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक, ऊपर वर्णित मार्टगैजर एवं स्युरिटी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मार्टगैजर, स्युरिटी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 अगस्त, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं स्यरिटी तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय सुचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक समय-समय पर ऋण खाता के लिये लागु आगे के ब्याज, दंड ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं उक्त राशि की वसली के लिये बैंक द्वारा वहन की गई लागतों के साथ रु. 15.43.203/- के लिये "दी कांगडा को-ऑपरेटिव बैंक लि." के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक, मार्टगैजर एवं स्युरिटी का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विचाराधीन सम्पत्ति उप-रजिस्ट्रार IX, दिल्ली के पंजीकरण के अंतर्गत पश्चिमी भाग दसरा तल पर से मख्य प्रवेश स्टिल्ट फ्लोर से ऊपरी तल तक जाने वाली पैसेज निर्मित (बैक एवं सीढ़ियों के सामृहिक उपयोग एवं स्टिल्ट फ्लोर एरिया में एक साइड) में स्थित है, बाइक के पार्किंग के स्थान के साथ ग्राम नसीरपर, दिल्ली राज्य छत के अधिकार के दिल्ली की राजस्व सम्पदा, कैलाश पूरी के नाम से विदित कॉलोनी, बिना एरिया माप 40 नई दिल्ली-110045 में स्थित खसरा नं. 429 में गली नं. 2, सुपर एरिया माप 40 वर्ग यार्डस में प्लॉट नं. 14 पर निर्मित सम्पत्ति सं. वर्ग यार्डस आरजेड-14 में छत/टैरेस के अधिकार के बिना निर्मित दसरे तल (बैक साइड) का सभी भाग तथा हिस्सा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

चौहद्दी इस प्रकार है: पर्वः 6 फीट चौडी गली

पश्चिमः सम्पत्ति का भाग दक्षिणः सम्पत्त का भाग उत्तरः अन्य सम्पत्ति

(मीनाक्षी वत्स) प्राधिकत अधिकारी दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि. प्रधान कार्यालयः सी-29, कम्युनिटी सेन्टर पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 फोन नं. 9013568418, 9013568419

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L25209RJ2009PLC030620 पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006

ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाइंट : www.vinayakpolycon.com

13वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना एतद् द्वारा सचित किया जाता है कि

१. विनायक पॉलीकॉन इंटरनेशन लिमिटेड के सदस्यों की 13 वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएस) बीडियों कॉ-फोसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विज्ञल माध्यम (ओएवीएम) कं माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित माधारण और विशेष व्यवसायों के लेन-देन के लिए शक्कार, 16 सिलंबर, 2022 को दोपहर

2. बैठक की सचना, विलीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोट 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गई और रिपोट ई-वोटिंग विवरण इलेक्टॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं। शेयरधारको को नोटिस के मंदर्भ में ई-मेल भेजे जाने की तारीख 23 अगस्त, 2022 है। यह कांपनी की वेबसाइट www.vinayakpolycon.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम में लेन-देन के लिए व्यापार की वस्तुओं से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य निवेशक को investor@vinayakpolycon.com पर ई-मेल भेज सकते हैं। यदि आपने कंपनी डिपॉजिटरी के साथ ई-मेल आईडी पंजीकत नहीं किया है तो कपया सचना में निर्दिष्ट निर्देशों का पालन

09 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तारीख के अनुसार, भौतिक या डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने बाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्टॉनिक बोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-बॉटिंग) के माध्यम से एजीम के नोटिस में उन्लेखित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से

निर्दिष्ट व्यवसायों पर अपना वोट डाल सकते हैं ।सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि: ए जीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से लेन-देन किया

रिमोट ई-वोटिंग 12 सितम्बर 2022 को प्रात: 9:00 बजे प्रारम्भ होगी और 15 सितंबर, 2022 को सार्थ 5:00 खजे समाप्त होगी।

मतदान के लिए कट-ऑफ तारीख 09 सितंबर, 2022 है। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है या कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख़ 09 सितंबर, 2022 तक शंयरों का धारण करता है तो

evoting@nsdl.co.in वा आरटीए, मॉस सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर अन्रांच भेजकर भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है । हालांकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-बोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मीजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए कर सकता है। सदस्य व्यान दें कि :

ए) रिमोट ई-बोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान की तारीख और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा । एक बार प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा वोट डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी।

बी) 🕏 -बोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। सी) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी

वीसी / ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वांट डालने के हकदार नहीं होंगे। तथा डी) ऐसे सदस्य जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों

के रजिस्टर में कट ऑफ तारीख को दर्ज है, केवल वे सदस्य ही एजीएम में ई-बोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्राप्त करने का हकदार होंगे। 6. ई-बोटिंग की मुचना कंपनी की वेबसाईट www.vinayakpolycon.com और ई-बोटिंग एजेंसी की

वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों / शिकायतों के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्य) एवं सदस्यों के लिए ई-बोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को www.evoting.nsdl.com के सहायता अनुभाग पर जाकर अल्लेख कर सकते है या टोल की नं. 1800 1020 990/ 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल करें । सदस्य शिखा नाटाणी (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारीं) को investor@vinayakpolycon.com पर या 312, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपूर-302006 पर लिख सकते हैं या 91-141-2377007 पर कॉल कर सकते हैं। सी. बक क्लोजर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10, कंपनी नियम 10 (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी के नियमन 42 (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर स्थानांतरण पुस्तकें 10 सितंबर, 2022 से 16 सितंबर, 2022(दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

वास्ते- विनायक पॉलीकोन इन्टरनेजनल लिमिटंड

शिखा नाटाणी (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थान : जवपुर विनांक : 23.08.2022 सदस्यता सं.: 45901

होज खास, नई दिल्ली-110016, फोन: 011 26524100 जन-जन के लिए भण्डारण सं. के.म.नि. /बी. एण्ड सी. / एजीएम / 2022 दिनांकः 24.08.2022

केन्द्रीय मंडारण निगम की 80वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 24.09.2022 (शनिवार) को निगमित कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो—विजुअल माध्यमी (वीसी / ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी। बैठक में भाग लेने के संबंध में विस्तृत सचना एवं निर्देश सभी अशधारियों को उनके पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिए गए हैं। विडियों कॉन्फ्रॅसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी / ओएवीएम) से बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को पूरी तरह से भरा हुआ प्रोक्सी फार्म (होलोग्राम लगा हुआ) (मूल-1) / संकल्प डाक / कुरिअर से सचिव कार्यालय, केन्द्रीय मंडारण निगम, 4/1, सीरी इन्स्टीच्यशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, डींज खास, नई दिल्ली-110016 में भेजना है तथा वे उक्ते फार्म की स्कैन प्रति ई-मेल secycwc@cewscor.nic.in या व्हॉटसअप नं. +91-9971236904 पर भी दिनांक 20.09.2022 को 17.00 बजे तक या इससे पूर्व मेज दें। सूचना की तिथि अर्थात 24,08,2022 से पहले जारी और दिनांक 20,09,2022 के बाद जमा किए गए प्रोक्सी-1/ संकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया विरत्त जानकारी के लिए www.cewacor.nic.in पर लॉग-ऑन करें। सचिव, के.म.नि.

GOALPOST INDUSTRIES LIMITED (Formerly known as Gulmohar Investments and Holding Ltd)

Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Tel.:011-27860681 Email: gulmoharlimited@gmail.com | Website:www.goalpostltd.in CIN:L74110DL1982PLC013956

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the members of Goalpost Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, September 16, 2022 at 11: 00 A.M at 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Notice convening the Meeting along with Annual Report has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e Friday, August 12,2022. Notice is available on the website of the Company (www.goalpost/td.in).

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.goalpostltd.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 13th September 2022 from 9:00 A.M. and end on Thursday 15th September, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date(Record date), i.e., Friday 09th September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE FOR AGM AND DIVIDEND

NOTICE is also hereby given pursuant to applicable provision of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Friday 09th September, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the AGM and to receive final dividend for the financial year 2021-22. The dividend, if declared at the AGM, will be paid within a period of 30(thirty) days from the conclusion of the AGM

For and on behalf of Board Goalpost Industries Limited Pawan Kumar Mittal

(Director)

DIN: 00749265

Date: 23/08/2022 Place: New Delhi

ACE

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L74899HR1995PLC053860 पंजी. कार्यालय : द्धोला लिंक रोड, दुधोला, जिला पलवल-121102, हरियाणा फोन : +91-1275-280111 (50 खाइन्स), फैक्स : +91-1275-280133

ई-मेलः cs@ace-cranes.com, वेबसाइट : www.ace-cranes.com 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), रिमोट ई-वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचन एतद्वारा सचना दी जाती है कि:

(अ) कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रयोज्य प्रावधानों एवं उसके तहत निर्मित नियमों तथा सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 तथा 2/2022 क्रमशः दिनांव 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 तथा 5 मई, 2022 वे साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 एवं सेबी परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') एवं सेबी द्वारा निर्गत अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिव परिपत्र'' सन्दर्भित) के अनुपालन में एजीएम आयोजित करने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय वे लेन-देन के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की अट्टाईसवीं (28वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडिये विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को 12.00 बर्ज अप. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। 28वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2022 व समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं रिमोट ई-वोटिंग का विवरण उन सभी सदस्यों के पार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ace cranes.com, तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथ

www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। (ब) रिमोट ई-वोटिंग सूचना : कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 13 सितम्बर, 2022 तक भौतिक र अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली से उनके ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 28व एजीएम की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपन मतदा कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि :

1. 28वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया जायेगा 2. डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट ('रिमोट ई-वोटिंग') वोटिंग का तरीक 28वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। 3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान शक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे प्रातः

प्रारम्भ होगा और सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगा। 4. ई-वोटिंग 28वीं की एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य

जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे 28वीं एजीएम में मतदा-कर सकेंगे। ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के दिन वही है जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए 5. 28वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों या ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित

करने की कट-ऑफ तिथि 13 सितम्बर, 2022 है।

6. कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और 28वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने वे पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 13 सितम्बर, 2022 कं शयर धारण करता है वह कृपया वाट डालने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने हेत् अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के लिए 28वीं एजीएम की सूचना का सन्दर्भ लें य evoting@nsdl.co.in या आरटीए या कम्पनी के पास cs@ace-cranes.com पर निवेदन भेजकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

7. एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के लिए, सदस्य 28वीं एजीएम की सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग निर्देश ध्यान पूर्वक देख सकते हैं या एजीएम और ई-वोटिंग भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के मामले में सदस्य एनएसडीएल के Frequently Asked Questions (FAQs) का सन्दर्भ ले सकते हैं या एनएसडीएल evoting@nsdl.co.in/1800 1020 990 तथा 1800 224 430/ पर संपर्क कर सकते हैं या श्री अभिषेक मिश्रा, प्रबंधक (एनएसडीएल) से evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं। 8. सदस्य ध्यान दें कि :

(क) कथित तिथि एवं समय के पश्चात ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

(ख) सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसे बदलने

(ग) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी एजीएम मं शामिल हो सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 13 सितम्बर, 2022 को डिपॉजिटरी द्वार अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वर्ह रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग करने के पात्र होंगे। (ङ) निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग की संवीक्षा के लिए

मैसर्स विशष्ट एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सिचव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है (स) बुक क्लोजर : पुनः एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीबद्धत दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों वे रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका मंगलवार, 13 सितम्बर, 2022 से मंगलवार 20 सितम्बर, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक वार्षिक आम बैठक और वित्त वर्ष 2021-

22 हेतु लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बन्द रहेंगी। (द) शेयरधारक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लाभांश भुगतान पर टीडीएस के संबंध में कंपनी वे संचार और कंपनी के 28वीं एजीएम के नोटिस में संबंधित मामलों का सन्दर्भ ले सकते हैं।

> कृते एवं हिते एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

> > अनिल कुमा

कम्पनी सचिव

तिथि : 23 अगस्त, 2022 स्थान : पलवल

नर्ड दिल्ली

गुमशुदा व्यक्ति की तलाश

व्यक्ति नाम राम चन्द्र, पुत्र कालू जी, निवासी मकान नं. सी–391, कैम्प नं. 2 नांगलोई, दिल्ली। उम्र 64 साल, कद 5'8", गेहुआ रंग। जिसने ग्रे रंग की शर्ट गहरे कॉफी रंग की पैंट व हवाई चप्पल पहने हुए है। जो दिनांक

03.08.2022 से अपने घर से लापता है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी इस लापता व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल सका है।

इस संदर्भ में डीडी नं. 138-ए 03.08.2022 थाना नांगलोई दिल्ली में दर्ज है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस लापता व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी / सूचना हो तो निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

ई-मेल : cic@cbi.gov.in फेक्स: 011-23011334 फोन: 011-23014046 011-23015218

DP/216/OD/2022

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की 38वीं वार्षिक आम बैठक

बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी।

liance@blsintemational.net पर अनुरोध करेंगे।

उपलब्ध करायी जायेगी।

स्थानः दिल्ली

तिथि: 20.08.2022

www.readwhere.com